

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 1978/फाल्गुन 29, 1899

No. 133] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 1978/PHALGUNA 29, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1978

का०आ० 186(अ) --लाक प्रतिलिखित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) का
धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा जिसमें उस अभ्यर्थी का नाम है जो राज्य सभा
में रिक्त स्थान का भरण के लिये निर्वाचित हो गये है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये
प्रकाशित की जाती है --

घोषणा

“उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :—

श्री शिवानन्दन सिंह,
मकान नं० 1389/2,
मोहल्ला बागदाऊ दयाल,
वार्ड 6, ग्वालटोली,
हमीरपुर, उ० प्र०।

उस सदन में श्री प्रकाश वीर शास्त्री की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : विधान भवन, लखनऊ।

तारीख : 18 मार्च, 1978।

ह०/- सत्य प्रिय सिंह, रिटर्निंग आफिसर”

[सं० फा० 13(4)/78-विधायी-II]

ई० वेंकटेश्वरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 1978

S.O. 186(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information :—

DECLARATION

Election to the Council of State by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Shiva Nandan Singh,
House No. 1389/2, Mohalla
Bag Dau Dayal Ward 6,
Gwalteli, Hamirpur, U.P.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Prakash Veer Shastri.

Place : Vidhan Bhawan, Lucknow. Sd/- S. P. SINGH, Returning Officer.
Dated : March 18, 1978. Legislative Assembly Secretariat, Uttar Pradesh.”

[No. F. 13(4)/78-Leg. II]

E. VENKATESWARAN, Joint Secy.